



# Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.

( A Government of Rajasthan Enterprise )

Regd. Office : C-89/90, Janpath, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CORPORATE OFFICE: 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

FAX : (0294)2428739, 2428768; PHONE : 2428794, 2428763-67

GSTIN No: 08AAACR7857H1Z0

क्रमांक :- आरएसएमएम/सीओ/प्रशा/1(3)/21-22/7

दिनांक :- अप्रैल 02, 2021

## सूचना

कॉरपोरेट कार्यालय, जयपुर, दिल्ली एवं कोलकत्ता कार्यालय में कार्यरत कामगारों एवं कम्पनी के समस्त अधिकारियों से जो कि संस्थान के नियमों के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए वाहन खरीदने हेतु ऋण की पात्रता रखते हैं, से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

दिनांक 15 मई, 2021 तक आवेदन पूर्णरूप से मय संबंधित दस्तावेजों के दिनांक 20 मई, 2021 तक प्रशासन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए।

  
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष - कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर/दिल्ली कार्यालय/कोलकत्ता कार्यालय।
4. सूचना पट्ट - कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।

  
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

FORM 'A'

**Rajasthan State Mines & Minerals Limited**

(A Government of Rajasthan Enterprise)

(Application for advance for purchase of Conveyance)

1. (i) Name :
- (ii) Father's Name :
2. Designation :
3. Permanent Residential Address :
4. Name of Department/Section :
5. Monthly Basic Pay :
6. (i) Date of Appointment :
- (ii) Date of Confirmation :
- (iii) Date of Retirement :
7. Kind and approximate value of conveyance proposed to be purchased :
8. Amount of advance asked for :
9. Conveyance advance if already drawn, Date of drawing and the date on which it was fully repaid.
10. Whether officer agree to insure Car/Jeep/Scooter/Motorcycle etc. :

**DECLARATION**

1. I hereby find myself to use the money for the purpose I have applied for and in strict compliance with conveyance advance procedure of Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.
2. I hereby agree that in the event of resignation, termination, dismissal, removal or compulsory retirement from service or death before complete repayment of advance with interest thereon, the Company shall be free to recover the outstanding amount of advance and interest thereon from amount of gratuity/bonus or company's contribution to contributory provident fund or leave salary or any other emoluments payable to me on or after the date of occurrence of any of the aforesaid eventuality.

Signature of the Officer : .....

Designation : .....

Name of Department : .....

Date : .....